

Session 2020-21
MODEL QUESTION PAPER
CLASS IXth
COMPUTER SCIENCE

Time Allowed : 3 Hours Maximum Marks : 35

Special Instructions :

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. Marks allotted to each question are indicated against it.

1. While Answering your questions, you must indicate on your Answer-book the same question No. as appears in your Question Paper.
2. Do not leave blank page or pages in your Answer-book.
3. All questions are compulsory. Internal choices are given.

1. Fill in the Blanks. (Attempt Any Five) $1 \times 5 = 5$

- (a) 1 KB = bytes.
- (b) Full form of CPU is
- (c) Scanner is an device.
- (d) Shortcut command for Italic is
- (e) File menu is located at the left of tab.
- (f) First screen of the window is called
- (g) Ctrl + S is a shortcut key to a file.

रिक्त स्थान भरें। (कोई भी पांच प्रयास करें)

1×5= 5

- (क) 1KB = Bytes.
- (ख) CPU का पूर्ण रूप है।
- (ग) Scanner एक डिवाइस है।
- (घ) इटैलिक के लिए शॉर्टकट कमांड है।
- (ङ) फाइल मेनू tab के बाईं ओर स्थित है।
- (च) Window की पहली स्क्रीन को कहा जाता है।
- (छ) Ctrl + S फ़ाइल करने की एक शॉर्टकट Key है।

2. State whether the following statements are true and false. (Attempt Any Five) 1 × 5 = 5

- (a) The taskbar is usually located on the top of the desktop.
- (b) Scanner work like a photo state machine.
- (c) ROM is a Non-Volatile memory.
- (d) You cannot get print out of the recorded data.
- (e) After making presentation you cannot save it for future use.
- (f) We cannot change the name of file/folder.
- (g) Clip Art is a single piece of ready made Art.

बताएं कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। (कोई भी पांच प्रयास करें।)

1 × 5 = 5

- (क) टास्कबार आमतौर पर डेस्कटॉप के शीर्ष पर स्थित होता है।
- (ख) स्कैनर एक फोटो स्टेट मशीन की तरह काम करता है।
- (ग) ROM एक Non-Volatile मेमोरी है।

- (घ) आप रिकॉर्ड किए गए डेटा का प्रिंट आउट नहीं ले सकते।
- (ङ) प्रस्तुति बनाने के बाद आप इसे भी भविष्य में उपयोग के लिए सहेज नहीं सकते।
- (च) हम फाइल/फोल्डर का नाम नहीं बदल सकते।
- (छ) क्लिप आर्ट तैयार किए गए आर्ट का एक टुकड़ा है।
3. (a) Write a note on the unit of memory. 3

Or

What is Light Pen ?

Or

Write Characteristics of computer system. 3

- (क) मेमोरी की इकाई पर एक नोट लिखिए ? 3

या

लाइट पेन क्या है ?

या

कम्प्यूटर सिस्टम की विशेषताएँ लिखिए। 3

- (b) Write the basic functions of Operating System. 3

Or

What is window explorer ? What are the five views of window explorer ?

- (ख) ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल कार्य लिखें। 3

या

विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर के पांच दृश्य क्या है ?

- (c) What are the various types of RAM ? 3

Or

List the components of computers.

(ग) RAM के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? 3

या

कम्प्यूटर के घटकों की सूची बनाएं।

(d) Write the steps to create file or folder. 2

Or

What are the advantages of Operating System ?

(घ) फ़ाइल या फ़ोल्डर बनाने के लिए चरण लिखें। 2

या

ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं ?

4. (a) Name the three basic font styles used in text. 2

Or

What is undo command ?

(क) Text में उपयोग की जाने वाली तीन मूल फॉन्ट शैलियों को नाम दें। 2

या

Undo command क्या हैं ?

(b) How you edit a document text ? 3

Or

How you will add and remove the header and footer?

(ख) आप दस्तावेज़ Text को कैसे Edit करते हैं ? 3

या

आप header and footer को कैसे जोड़ेंगे और निकालेंगे? 3

(c) How you will open a document ? 3

Or

How you will close a document ?

Or

Explain the function of

(i) Ctrl + c, (ii) Ctrl + x, (iii) Ctrl + v

(ग) आप एक दस्तावेज़ कैसे खोलेंगे ?

या

आप एक दस्तावेज़ को कैसे बंद करेंगे ?

या

(i) Ctrl + C, (ii) Ctrl + X, (iii) Ctrl + V का कार्य समझाइए।

5. (a) Describe the different type of ribbon and their function. 2

Or

How will you insert picture in your presentation ?

(क) Ribbon के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य का वर्णन करें। 2

या

आप अपनी Presentation में तस्वीर कैसे डालेंगे ?

(b) What are the steps to insert transition effect ?

2

Or

How will you create presentation by sample template ? 2

(ख) Transition effect डालने के लिए क्या कदम हैं ? 2

या

आप Sample template द्वारा presentation कैसे बनाएंगे ?

(c) What is clip Art ? 2

Or

What is Theme ?

(ग) Clip Art क्या है ? 2

या

Theme क्या है ?